



खामोश हूँ मैं

८११.८
भग/स्वा-१

भगवतशरण अग्रवाल